

**Almondz Global Securities Limited**

Ref:agsl/corres/Bse/Nse/22-23/011

May 25, 2022

The General Manager  
(Listing & Corporate Relations)  
Bombay Stock Exchange Ltd.  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400001

The Listing Department  
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai - 400051

**Re: Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2022 as published in the Newspapers**


Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended 31<sup>st</sup> March, 2022 as published in the newspapers.

You are requested to kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours Faithfully,  
For Almondz Global Securities Ltd.

  
Ajay Pratap  
Company Secretary &  
Vice President Corporate Affairs



Encl:a/a

SEBI Registration : INM000000834

Registered Office : F-33/3, Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110 020, India. Tel. :+91 11 4350 0700, 4151 4666 Fax : +91 11 4350 0735

CIN : L74899DL1994PLC059839 • Email : info@almondz.com • Website : www.almondzglobal.com, www.almondz.com



Sub-Section (8) of Section 13 of Secured Assets.

**REAL PROPERTY**

AREA OF 1455 SQ. FT., 25TH FLOOR, L-MODERN, PHASE VI, PLOT NO. 14, COVERED PARKING.

**Authorised Officer**  
HOUSING FINANCE LIMITED

**Prakash Industries Limited**

Road, Hissar-125044 (Haryana)  
CIN: L74899DL1994PLC010724

**NOTICE**

As per Section 108, 110 and other provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 and other provisions of the Companies (Meetings) Rules, 2014, Regulation 44 of the Companies (Meetings) Regulations, 2014 and Disclosure Requirements) Standard on General Meetings of Companies of India and in accordance with the provisions of the Companies (MCA) vide General Circular No. 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020 and dated December 31, 2020, 10/2021 dated August 8, 2021 (hereinafter collectively referred to as "the Regulations"), the members of the Company are invited to attend the Annual General Meeting of the Company (the Company) is sought to be held on the date mentioned above (e-voting).

The members of the Company are invited to attend the Annual General Meeting of the Company through e-mails to the members of the Company. Email addresses are registered with the Company on Friday, May 13, 2022. Further in this regard, hard copy of Notice, Postal Ballot Form have not been sent to the members of the Company to communicate their assent or dissent to the resolutions proposed. The Company has engaged the services of the Registrar of Companies for the purpose of providing the facilities for e-voting.

The details of the resolutions are available on the website of the Company at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and on the website of the Registrar of Companies at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and the details of the procedure/instructions on the website of the Company in which the members who have registered their email address and/or can

check the eligibility of members to avail the facilities for e-voting. The members whose name is registered with the Company or in the register of beneficial owners of the Company as on the cut-off date shall only be entitled to exercise their voting rights as a member as on the cut-off date.

The Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, May 26, 2022 at 9.00 A.M. to 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting facility will be available on the date mentioned above and a resolution is cast by a member on the date mentioned above.

The members of the Company are invited to attend the Annual General Meeting of the Company through e-mails to the members of the Company for conducting the Postal Ballot Form in the manner mentioned above.

The details of the resolutions are available on the website of the Company at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and on the website of the Registrar of Companies at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and the details of the procedure/instructions on the website of the Company in which the members who have registered their email address and/or can

may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Director, 25th Floor, A Wing, Marathon Building, Mumbai - 400013, E-mail id [rakesh.dalvi@prakashindustries.com](mailto:rakesh.dalvi@prakashindustries.com), or to RTA at 0450193-97 or Company at 25305800 or refer the Frequently Asked Questions available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

By order of the Board  
**For Prakash Industries Limited**  
Sd/-  
Ashwini Kumar  
Company Secretary  
M. No. F-11746

27.06.2022	28.06.2022, समय 5.30 बजे सायं	30.06.2022
11.07.2022	13.07.2022, समय 5.30 बजे सायं	15.07.2022
Visit us: <a href="http://www.mphousing.in">http://www.mphousing.in</a> म.प्र. माध्यम/105035/2022		
सफल एवं पारदर्शी ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध मुग्तान की कोई असुविधा होने पर Whatsapp Help Desk Number 7974264023		

**almondz**  
*the game changer*

**Almondz Global Securities Limited**  
CIN: L74899DL1994PLC059839  
Regd. Off: F-33/3 Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020  
Tel.: 011-43500700, Fax.: 011-43500787  
Website: [www.almondzglobal.com](http://www.almondzglobal.com), E-mail ID: [secretarial@almondz.com](mailto:secretarial@almondz.com)

**Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter / Year ended 31 March 2022**

Rupees in Lakh

Particulars	Quarter Ended			Year ended	
	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total income from operations	1,885	1,576	2,017	6,873	6,138
Net profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(54)	(47)	66	555	634
Net profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	(54)	(47)	66	555	634
Net profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items, minority interest and share of profit/(loss) in associate companies)	177	315	638	1,855	1,847
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	182	328	652	1,887	1,903
Equity Share Capital	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance sheet)				16,775	14,823
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 6/- each)					
(a) Basic	0.68	1.22	2.52	7.17	7.35
(b) Diluted	0.65	1.18	2.44	6.82	7.11
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 6/- each)					
(a) Basic	0.68	1.22	2.52	7.17	7.35
(b) Diluted	0.65	1.18	2.44	6.82	7.11

**Key number of Standalone Financial Results**

Particulars	Quarter Ended			Year ended	
	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Net Income from Operations	570	498	780	2,420	2,643
Profit from ordinary activities before tax	(31)	26	114	372	506
Profit from ordinary activities after tax	(64)	14	67	285	369
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	(67)	17	51	291	381

**Notes:**

- The financial results have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter / year ended 31 March 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter / year ended 31 March 2022 are available on the website of the company i.e. [www.almondzglobal.com](http://www.almondzglobal.com) and stock exchanges website, i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).
- The Consolidated Audited Financial results for the quarter / year ended 31 March 2022 include figures pertaining to two associates; M/s Premier Alcobev Private Limited & M/s Almondz Insolvency Resolutions Services Private Limited.

For and on behalf of the Board of  
**Almondz Global Securities Limited**  
Sd/-  
Jagdeep Singh  
Wholtime Director  
DIN: 00008348

Place: New Delhi  
Date: 24 May - 2022

**IIDL IFCI INFRASTRUCTURE**  
Regd. Office: IFCI  
New Delhi

**Tender Notice for supply of**  
for Hotel IIDL Suites  
Plot No. AA, District Centre, Mayapuri Vihar, Phase II, New Delhi - 110029

Sealed tenders are invited from their sole authorized distributor/suppliers for the mentioned item (Inviting Tender) for the rate of due date for submission of tenders 17.30 Hours.

Detail of NIT (Notice Inviting Tender) is available at [www.iidlindia.com](http://www.iidlindia.com) and [www.ifciinfrastructure.com](http://www.ifciinfrastructure.com)  
Mobile - 9650187

**Gabriel India Limited**  
**GABRIEL**  
EXTRACT

Sr. No.	Particulars
1	Revenue from Operations
2	Net Profit for the period
3	Net Profit for the period
4	Total Comprehensive Income for the period (after tax) (after tax)
5	Equity Share Capital
6	Reserves
7	Earnings per Equity share (not annualized) - Basic

**Notes:**

- These financial results have been prepared in accordance with the Companies Act, 2013.
- The above results have been audited by the Statutory Auditors.
- As the Company's business is seasonal, the results are not necessarily representative of the year.
- The Company has taken necessary steps for preparing the financial statements in accordance with the requirements of the Companies Act, 2013. The Company is confident that the financial statements are fair and true and its impact on the business is not significant.
- The Board of Directors at the meeting held on March 31, 2022, together with the Statutory Auditors, have approved the financial statements for the year ended March 31, 2022 and March 31, 2021.
- The figures for the quarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are in Rupees.
- The figures for the previous year are in Rupees.
- The above is an extract of the financial statements (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 available on the stock exchange websites.

Place : Pune  
Date : May 24, 2022



almondz  
the game changer

## Almondz Global Securities Limited

CIN: L74899DL1994PLC059839

Regd. Off: F- 33/3 Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020

Tel.: 011-43500700, Fax.: 011-43500787

Website: www.almondzglobal.com, E-mail ID: secretarial@almondz.com

### Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter / Year ended 31 March 2022

Rupees in Lakh

Particulars	Quarter Ended			Year ended	
	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total income from operations	1,885	1,576	2,017	6,873	6,138
Net profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(54)	(47)	66	555	634
Net profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	(54)	(47)	66	555	634
Net profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items, minority interest and share of profit/(loss) in associate companies)	177	315	638	1,855	1,847
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	182	328	652	1,887	1,903
Equity Share Capital	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance sheet)				16,775	14,823
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 6/- each)					
(a) Basic	0.68	1.22	2.52	7.17	7.35
(b) Diluted	0.65	1.18	2.44	6.82	7.11
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 6/- each)					
(a) Basic	0.68	1.22	2.52	7.17	7.35
(b) Diluted	0.65	1.18	2.44	6.82	7.11

#### Key number of Standalone Financial Results

Particulars	Quarter Ended			Year ended	
	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Net Income from Operations	570	498	780	2,420	2,643
Profit from ordinary activities before tax	(31)	26	114	372	506
Profit from ordinary activities after tax	(64)	14	67	285	369
Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	(67)	17	51	291	381

#### Notes:

- The financial results have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter / year ended 31 March 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter / year ended 31 March 2022 are available on the web site of the company i.e. [www.almondzglobal.com](http://www.almondzglobal.com) and stock exchanges website, i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).
- The Consolidated Audited Financial results for the quarter / year ended 31 March 2022 include figures pertaining to two associates; M/s Premier Alcobev Private Limited & M/s Almondz Insolvency Resolutions Services Private Limited.

For and on behalf of the Board of  
Almondz Global Securities Limited

Sd/  
Jagdeep Singh  
Wholetime Director  
DIN: 00008348

Place: New Delhi  
Date: 24 May - 2022

वोट इलेक्ट्रॉनिकली डाल सके। ईजीएम की सूचना में निहित व्यवसाय अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा निष्पादित होने वाले मुद्दों पर नेशनल सिक्वोरीटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है।

सदस्यों को पुनः सूचित किया जाता है कि :

- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, जून 14, 2022 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) से प्रारम्भ होकर वीरवार, जून 16, 2022 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी;
- रिमोट ई-वोटिंग की वीरवार, जून 16, 2022 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) के बाद अनुमति नहीं होगी;
- कोई भी रिमोट ई-वोटिंग की उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त अनुमति नहीं होगी एवं उपरोक्त समयावधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मापाक निरस्त कर दिया जायेगा। एक बार प्रस्ताओं पर वोट डालने के बाद सदस्यों को उसे फिर से बदलने की अनुमति नहीं होगी;
- ई-वोटिंग के उद्देश्य हेतु कट-ऑफ तिथि वीरवार, जून 09, 2022 निर्धारित की गई है। सदस्यों को वोटिंग अधिकार उनके द्वारा कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के पंजीकृत शेयरों के चुकता मूल्य के आधार पर गणना के लिए होगी;
- कोई व्यक्ति जिसने कम्पनी के शेयर अर्जित किये हैं और ईजीएम की सूचना को भेजने के बाद सदस्य बना हो एवं कट-ऑफ तिथि वीरवार, जून 09, 2022 को शेयर धारण करता हो, यूजर आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अथवा कम्पनी/आरटीए को आग्रह भेज सकता है। फिर भी कोई व्यक्ति एनएसडीएल पर पहले से रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है, वह वोट देने के लिए पहले वाले यूजर आईडी एवं पास वर्ड का प्रयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पास वर्ड भूल गया है, तो वह [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध "फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड" अथवा "भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड" विकल्प का प्रयोग कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है अथवा एनएसडीएल के टोलफ्री नं० 18001020990/1800224430 पर सम्पर्क कर सकता है;
- ई-वोटिंग सुविधा साथ में ईजीएम के दौरान उपलब्ध कराई जायेगी ताकि जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकें;
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा ईजीएम से पहले अपना वोट दे दिया है वे वीसी/ओपीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी;
- ईजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.jagsonpal.com](http://www.jagsonpal.com) पर एवं एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित की गई है;

उन शेयरधारकों जिन्होंने अपने ई-मेल आईडीज पंजीकृत नहीं कराये हैं ई-मेल आईडीज पंजीकरण के लिए निम्न प्रक्रिया दी गई है;

- भौतिक माध्यम में शेयर धारित, कृपया फोलियो नं०, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की इक्रेन कॉपी (आगे-पीछे), पैन (स्व-सत्यापित पैन कार्ड), आधार (स्व-सत्यापित आधार कार्ड) को ईमेल द्वारा [cs@jagsonpal.com](mailto:cs@jagsonpal.com) अथवा [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) पर प्रदान करें।
- डिजिटल माध्यम में शेयर धारित, कृपया डीपीआईडी (16-अंकों वाला डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा (16-अंकों वाला लाभदाई आईडी), नाम, क्लॉस्ट्र मास्टर अथवा समेकित एकाउन्ट स्टेटमेंट कॉपी, पैन (स्व-सत्यापित पैन कार्ड), आधार (स्व-सत्यापित आधार कार्ड) को [cs@jagsonpal.com](mailto:cs@jagsonpal.com) / [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) पर प्रदान करें।

ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए सदस्य से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में दिये गये अनुदेशों पर जाएँ। किसी भी प्रकार पृष्ठतार्थ/शिकायत के लिए सदस्य कृपया "लगातार प्रश्न पूछें" (एफएक्यूज) अथवा रिमोट ई-वोटिंग शेयरधारकों के लिए उपलब्ध यूजर नियमावली [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के सहायता भाग पर उपलब्ध से डाऊनलोड किये जा सकते हैं अथवा सुश्री सरिता मोटे, उप प्रबन्धक, एनएसडीएल चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्प्लेक्स, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, इण्डिया में [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर ई मेल द्वारा है अथवा टोल मुक्त नं० 1800-222-990 अथवा कम्पनी के आरटीए, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को [admin@mcsregistrars.com](mailto:admin@mcsregistrars.com) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ईजीएम की सूचना में वर्णित प्रस्ताओं के वोटिंग का परिणाम ईजीएम की निष्कर्षों के 2 कार्यदिवसों के अंदर घोषित किया जायेगा। परिणामों की घोषणा के साथ जाँचकर्ता की रिपोर्ट तुरन्त कम्पनी की वेबसाइट [www.jagsonpal.com](http://www.jagsonpal.com) पर एवं एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित कर साथ में स्टॉक एक्चेंज को भी सूचित किया जायेगा।

पुनः सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 साथ में पठित नियम 10 एवं लिस्टिंग विनियमन के नियमन 42 के अनुसरण में सदस्यों की पंजीका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें शुरूवार, जून 10, 2022 से शुरूवार, जून 17, 2022 (दोनों दिवस शामिल कर) ईजीएम के उद्देश्य हेतु बंद रहेंगी।

कृते जगसनपाल फर्मासिटिकल्स लिमिटेड

हस्ता०/-

नंदिता सिंह

कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 24.05.2022

सदस्यता संख्या ए 48520